

अभ्यास पत्र हिंदी, कक्षा दसवी – 2019

प्र०1- निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो -

- 1- 'नगरपालिका थी तो कुछ- न-कुछ करती भी रहती थी' - वाक्य में छिपे व्यंग्य को 'नेताजी का चश्मा' पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
- 2- पाठ के आधार पर बालगोबिन भगत के मधुर गायन की विशेषताएँ लिखिए।
- 3- प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग-साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें।
- 4- लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए।
- 5- 'जानी बुद्धि बड़ी' का क्या तात्पर्य है ?
- 6- परशुराम के अनुसार सेवक और शत्रु में क्या अंतर है ?
- 7- मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है ?
- 8- आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे ?

प्र०2 - निर्देशानुसार उत्तर दीजिए -

- 1- झोलेवाला लड़का कहाँ गया ? (मिश्र वाक्य में)
- 2- लल्लू ने चुटकुला सुनाया और मित्र हँस पड़े।
- 3- व्यायाम करो | स्वस्थ रहो। (संयुक्त वाक्य में)
- 4- धनी होने पर भी नारायण कंजूस है।
- 5- कल मुझे दिल्ली जाना है और फिर मुंबई। (सरल वाक्य में)
- 6- जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा।
- 7- राम के घर पहुँचने पर ही मैं आया हूँ। (संयुक्त वाक्य में)
- 8- नीतू ने कविता लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया।
- 9- भीख माँगने वाला कहाँ चला गया ? (मिश्र वाक्य में)
- 10- समय हो गया पर ड्राइवर बस नहीं चला रहा है।

प्र०3 - आपके पड़ोस की बिजली की दुकान में ऊँची आवाज में दिन-रात गाने बजते रहते हैं। इसकी शिकायत अपने क्षेत्र के थानाध्यक्ष को कीजिए।

अथवा

पुस्तक विक्रेता को गलत पुस्तकें भेजने की शिकायत करते हुए पत्र लिखिए।